



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2010/पौष 18, 1931

No. 35]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2010/PAUSA 18, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2010

सं. 23/2009—2014

विषय :—एक्जिम कोड “7208” के तहत मदों के लिए
आयात नीति ।

का.आ. 44(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-1 (आयात) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. चार अंकों वाले एक्जिम कोड ‘7208’ के तहत मदों के लिए आयात नीति को संशोधित कर “प्रतिबंधित” के स्थान पर “मुक्त” पढ़ा जाएगा ।
2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/89/180/46/एम 09/पीसी-2(क)]

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन विशेष सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2010

No. 23/2009—2014

Subject : Import Policy of items under Exim Code “7208”.

S.O. 44(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009—14, the Central Government hereby amends Schedule-1 (Imports) of the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items as under :—

1. Import Policy for the items under 4-digit Exim Code “7208” will be amended to read as “Free” instead of “Restricted”.
2. This issues in public interest.

[F. No. 01/89/180/46/AM 09/PC-2(A)]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Spl. Secy.